



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 माघ 1934 (श0)  
(सं0 पटना 143) पटना, सोमवार, 18 फरवरी 2013

---

सं0 3-ए-2-वे०पु०-04/2008-1519/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

14 फरवरी 2013

**विषय :-**माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शेट्टी कमीशन द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं 4 के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में की गई अनुशंसाओं के अनुरूप दिनांक 01.04.03 के प्रभाव से स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

शेट्टी आयोग तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों को वेतनमान का पुनरीक्षण वित्त विभागीय राज्यादेश ज्ञाप संख्या- 9118 वि०(2) दिनांक 30.10.2008 एवं ज्ञाप संख्या-9276 वि०(2), दिनांक 10.11.2008 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी की गई थी।

2. W.P.(C) No.1022/1989 में दिनांक 07.10.2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश एवं C.W.J.C. No.- 14425/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के क्रम में वेतन पुनरीक्षण संबंधी वित्त विभागीय राज्यादेश ज्ञाप संख्या-9118 वि०(2) दिनांक 30.10.2008 एवं ज्ञाप संख्या-9276 वि०(2) दिनांक 10.11.2008 को राज्यादेश ज्ञाप संख्या-6727 वि०(2) दिनांक 21.06.2010 द्वारा दिनांक 01.04.2003 के प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के क्रम में शेड्यूल कमीशन द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं 4 के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में की गई अनुशंसाओं के अनुरूप ही दिनांक 01.04.2003 के प्रभाव से स्वीकृत करने का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. अतएव सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों को निम्नवत् दिनांक 01.04.2003 के प्रभाव से स्वीकृत करने का निर्णय लिया है :-

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत वेतनमान	स्वीकृत भत्ते
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सिरिस्तेदार	रु० 8000-13500	-
2	प्रोसेस सर्वर	रु० 2750-4400	-
3	दफ्तरी	रु० 2650-4000	-
4	स्टेनोग्राफर (ग्रेड - I)	रु० 5500-9000	-
5	स्टेनोग्राफर (ग्रेड - II)	रु० 5000-8000	-
6	प्रोटोकॉल ऑफिसर	रु० 5000-8000	-
7	निजी सहायक/कार्यपालक सहायक	रु० 5500-9000	-
8	स्टेनो जो शहरी परिक्षेत्र में है	-	रु० 150 प्रतिमाह
9	स्टेनो जो तालुका/तहसील/जिलों में पदस्थापित है ।	-	रु० 100 प्रतिमाह
10	चालक	-	रु० 150 प्रतिमाह

पूर्व में स्वीकृत वेतनमान एवं भत्ते की अन्तर राशि का समायोजन देय बकाये के भुगतान से किया जाएगा।

(ii) जिला एवं सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग-3 एवं 4 के सभी कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2003 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के क्रम में दिनांक-31.03.03 को अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन पर एक वेतन वृद्धि देकर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का पुनरीक्षण किया जाएगा।

(iii) दिनांक 01.04.2003 से दिनांक 31.12.2005 तक के बकाये राशि का भुगतान शेष एक किश्त में वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण बजट पारित होने के बाद किया जायेगा।

(iv) वैसे कर्मों जो वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2006-07 के बीच सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उनका बकाया भुगतान राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013-14 के पूर्ण बजट पारित होने के बाद किया जायेगा।

(v) पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-9118वि०(2) दिनांक 30.10.2008, स्वीकृत्यादेश संख्या-9276वि०(2) दिनांक 10.11.2008 एवं राज्यादेश झाप संख्या-6727 वि०(2) दिनांक 21.06.2010 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं उनकी शेष कंडिकाएँ में वर्णित शर्तें यथावत रहेंगी।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रभात शंकर,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 143-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>